

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2585]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 2585]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2013

का.आ. 3425(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956, (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि असम राज्य के जोरहाट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के 453.000 कि.मी. से 487.000 कि.मी. तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध, और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त उपायुक्त (राजस्व), जिला जोरहाट, असम, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य व्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—37 के 453.000 कि.मी. से 487.000 कि.मी. तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक / मौजा का नाम	गाँव का नाम	ब्लॉक / सर्वेक्षण संख्या डैग (पट्टा) संख्या	भूमि की प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जोरहाट	(1) सरुसराय	(1) बोहतिया गाँव	1130 (140)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0133
				1126/1173 (565)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0200
				999 (105)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0400
				1571 (199)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0267
				1587 (362)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0800
				679/1832 (618)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0200
				1558 (280)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0027
				682 (192)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0027
				433 (86)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0080
				1618 (402)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0267
			(2) सरबायबन्धा गाँव	481 (58)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0267
				478 (283)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0267
				532 (478)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0053
				480 (60)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0307
				932 (275)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.032
				817 (256)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0347
				1024 (199)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0387
				1025 (309)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0067
				2185/2291 (863)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0027
		(2) चरीगाँव	(1) चेंगाली गाँव	729/2682 (234/712)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0133
				722 (329)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0227
				717 (447)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0067
				715 (312)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.008
				1083 (266)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.008
				377 (424)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.053
			(2) नं. 1 बमुन गाँव	2072 (493)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0867
				2073 (488)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0067
				2074 (106)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0347
				2023 (381)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0067
				2024 (482)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.1027
				2025 (169)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0867
				2028 (619)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.016
				2031 (523)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0467
				2032 (एपी 9)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0267
				2033 (105)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0213
				2034 (382)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0533
				2036 (581)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.048

				2041 (105)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0147
				2043 (399)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0667
				2046 (185)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0147
				2048 (350)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0133
				1946 (332)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0267
				1946/2933 (734)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0267
				1933 (587)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0067
				1932 (207)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.04
				1906 (351)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0093
				1871 (351)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0133
				1867 (297)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0267
				1804 (353)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.1013
				1905 (353)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.016
				1800 (38)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0067
				2039 (25)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0667
				1795 (545)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0107
				1798 (398)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0133
				1799 (557)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0533
				2061	सरकारी	सरकारी	0.0401
				2052 (200)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0173
				2051 (एपी)	वार्षिक पट्टा	बस्ती	0.1333
				2053 (180)	सामयिक पट्टा	बस्ती	
				2054 (एपी)	वार्षिक पट्टा	बस्ती	
				1831 (199)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0227
				1832 (208)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.024
				1873 (58)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0107
				1873/2506 (663)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.04
				1872 (135)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.04
			(3) कोलाखोवा गाँव	1524 (68)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0027
				1391 (518)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.036
				1400 (341)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.024
				1401 (392)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.028
				1404 (515)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0213
				1407 (421)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0027
				1411 (38)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.064
				1412 (518)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0213
				1413 (38)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.02
				1527 (128)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0213
				1532 (342)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0147
				1533 (520)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0133
				1535 (38)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0133
				1538/2105 (649)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.036
				1552 (342)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0133
				1553 (142)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.008
				1554 (38)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0013
				1557 (517)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0067
				1559 (565)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0213

				1580 (389)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0667
				1581 (453/719)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0213
				1633 (38)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0667
				1636 (66)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0027
				1675 (510)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.033
				1677 (520)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.136
				1386 (38)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0027
				1398 (518)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.004
				1399 (392)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0027
				1408 (38)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0027
				1409 (420)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0027
				1410 (519)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0027
				1562 (38)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.004
				1578 (344)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0027
				1563 (464)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0067
				1680 (43)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0013
				1681 (69)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.004
			(4) आयलामुथिया गाँव	56 (185)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.016
				95 (162)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.012
			(5) कुतुहबोरिया गाँव	1889 (298)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0133
				1890 (290)	सामयिक पट्टा	व्यापारिक	0.1467
				1890/2197 (423)	सामयिक पट्टा	व्यापारिक	0.044
				1886 (एपी)	वार्षिक पट्टा	बस्ती	0.024
				1874 (297)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0667
				1853/2183 (415)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0347
				1777 (192)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0533
				1860 (389)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.024
				1853 (340)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.1213
				1837 (340)	सामयिक पट्टा		
				1850 (218)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0053
				1810 (167)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.04
				2172 (410)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0987
		(3) हाथीगढ़	(1) नं. 1 घड़फालिया गाँव	317/451 (98)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.024
				387 (एपी)	वार्षिक पट्टा	कृषि	0.0013
				251 (64)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0533
				304 (18)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0027
			(2) नं. 2 घड़फालिया गाँव	1074 (137)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0867
				1115 (249)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0747
				1129 (एपी)	वार्षिक पट्टा	बस्ती	0.0027
			(3) कोपोराधारा गाँव	787 (240)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0053
				825 (एपी)	वार्षिक पट्टा	कृषि	0.0053
			(4) मेटेली गाँव	372 (124)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0013
		(4) चौखट	(1) सरुमोयनापरिया	715/785 (224)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0267

		गाँव				
		(2) गरियाहाबी गाँव	92 (चाय सामयिक पट्टा.2)	वार्षिक पट्टा		
			92 क (चाय सामयिक पट्टा.2)	वार्षिक पट्टा	चाय/बस्ती	0.1227
			92 ख (चाय सामयिक पट्टा.2)	वार्षिक पट्टा		
			128 (11)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0267
			138/168 (49)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.04
		(3) बमकुपुराचोवा गाँव	827 (243)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.03
			786 (253)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0067
			785 (76)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0067
			746 (41)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.004
			724 (241)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.12
			825 (241)	सामयिक पट्टा	बस्ती	
			826 (242)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0987
			824 (240)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.104
			822 (239)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0533
			805 (228)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.04
			747 (41)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0427
		(4) सोनारिभोरुआ गाँव	1281 (97)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0067
			1280 (52)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0133
			1326 (277)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0173
			1325 (एपी)	वार्षिक पट्टा	बस्ती	0.0707
			1305 (377)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0347
			1286 (117)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0067
			1351/1470 (423)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.012
			1286/1475 (428)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0067
	(5) हुलुंगापारा	(1) मेटेलिचुक गाँव	445 (22)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0027
		(3) मुदोइजानिया भोरुआ	26 (209)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.012
			32 (117)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0066
			36 (89)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.004
		(2) तिनकुनिया घरफालिया	87 (90)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0213
		(4) घरफालिया गाँव	109 (221)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.1227
			110 (221)			
			435 (177)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0133
			54 (163)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.068
			436 (160)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0133
			69 (106)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0693
		(5) नारा होलिधरिया गाँव	26 (237)	वार्षिक पट्टा	बस्ती	0.012
		(6) कुकुरा चोवा	31 (140)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0533
			32 (140)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0067
	(6) लाहिग	(1) चंगमाई गाँव	39 (14)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.1093
	(7) गखिड़खोवा	(1) नाओबेशा गाँव	1113 (219)	सामयिक पट्टा	बस्ती	0.0067

		(2) जहाखट	74 (100)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.0587
	(8) टिओक	(1) धेकियानानी भोरोलुआ गाँव	595 (108)	सामयिक पट्टा	बरस्ती	0.064
		(2) चौदांग गाँव	846 (248)	सामयिक पट्टा	बरस्ती	0.008
			533 (144)	सामयिक पट्टा	व्यापारिक स्थान	0.0066
			534 (144)	सामयिक पट्टा	व्यापारिक स्थान	0.0667
			575 (84)	सामयिक पट्टा	बरस्ती	0.006
			570 (26)	सामयिक पट्टा	बरस्ती	0.0307
		(3) बंगाली गाँव	242 (2)	सामयिक पट्टा	बरस्ती	0.1066
			464 (36)	सामयिक पट्टा	बरस्ती	0.0093
	(9) हजारी	(1) नकारी गाँव	6 (52)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.1107
		(2) दुलिया गाँव	859 (15)	सामयिक पट्टा	कृषि	0.012

[फा.सं. भाराप्र/बीओटी/11012/55/19/2004/भाग 3]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2013

S.O. 3425(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule below is required for building (widening/four lanning, etc.), maintenance, management and operation of National Highways No. 37 on the stretch of land from Km. 453.000 to Km. 487.000 in District Jorhat, in the State of Assam, hereby declares its intention to acquire such land for the aforesaid purpose;

Any person interested in the said land may, within twenty one days (21) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act ;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Additional Deputy Commissioner (Revenue), Jorhat District, Assam in writing, and shall set out the grounds thereof and the said Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 3C of the said act shall be final;

The land plans and other details of land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid Office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of Land (Left out) to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 453.000 to km. 487.000 on the National Highway No. 37 in the State of Assam.

Serial number	Name of the district	Name of Taluk/ mouza	Name of village	Block / Survey Number Dag (Patta) number	Type of land	Nature of land	Area in hectares
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jorhat	(1) Sarusarai	(1) Bohatia gaon	1130 (140)	Periodic Patta	Cultivated	0.0133
				1126/ 1773 (565)	Periodic Patta	Cultivated	0.0200
				999 (105)	Periodic Patta	Cultivated	0.0400
				1571 (199)	Periodic Patta	Cultivated	0.0267
				1587 (362)	Periodic Patta	Cultivated	0.0800
				679 /1832 (618)	Periodic Patta	Cultivated	0.0200
				1558 (280)	Periodic Patta	Cultivated	0.0027

				682 (192)	Periodic Patta	Cultivated	0.0027
				433 (86)	Periodic Patta	Basti	0.0080
				.	Periodic Patta	Cultivated	0.0267
			(2) Sarbaibandha gaon	481 (58)	Periodic Patta	Cultivated	0.0267
				478 (283)	Periodic Patta	Cultivated	0.0267
				532 (478)	Periodic Patta	Cultivated	0.0053
				480 (60)	Periodic Patta	Cultivated	0.0307
				932 (275)	Periodic Patta	Cultivated	0.032
				817 (256)	Periodic Patta	Cultivated	0.0347
				1024 (199)	Periodic Patta	Cultivated	0.0387
				1025 (309)	Periodic Patta	Basti	0.0067
				2185/2291 (863)	Periodic Patta	Basti	0.0027
		(2) Charigaon	(1) Chengeli gaon	729/2682 (234/712)	Periodic Patta	Cultivated	0.0133
				722 (329)	Periodic Patta	Cultivated	0.0227
				717 (447)	Periodic Patta	Cultivated	0.0067
				715 (312)	Periodic Patta	Cultivated	0.0080
				1083 (266)	Periodic Patta	Basti	0.0080
				377 (424)	Periodic Patta	Cultivated	0.053
			(2) No. 1 Bamun gaon	2072 (493)	Periodic Patta	Basti	0.0867
				2073 (488)	Periodic Patta	Basti	0.0067
				2074 (106)	Periodic Patta	Basti	0.0347
				2023 (381)	Periodic Patta	Cultivated	0.0067
				2024 (482)	Periodic Patta	Basti	0.1027
				2025 (169)	Periodic Patta	Basti	0.0867
				2028 (619)	Periodic Patta	Cultivated	0.016
				2031 (523)	Periodic Patta	Basti	0.0467
				2032 (AP 9)	Periodic Patta	Basti	0.0267
				2033 (105)	Periodic Patta	Basti	0.0213
				2034 (382)	Periodic Patta	Basti	0.0533
				2036 (581)	Periodic Patta	Basti	0.048
				2041 (105)	Periodic Patta	Cultivated	0.0147
				2043 (399)	Periodic Patta	Cultivated	0.0667
				2046 (185)	Periodic Patta	Cultivated	0.0147
				2048 (350)	Periodic Patta	Cultivated	0.0133
				1946 (332)	Periodic Patta	Cultivated	0.0267
				1946/2933 (734)	Periodic Patta	Cultivated	0.0267
				1933 (587)	Periodic Patta	Cultivated	0.0067
				1932 (207)	Periodic Patta	Cultivated	0.04
				1906 (351)	Periodic Patta	Basti	0.0093
				1871 (351)	Periodic Patta	Cultivated	0.0133
				1867 (297)	Periodic Patta	Cultivated	0.0267
				1804 (353)	Periodic Patta	Basti	0.1013
				1905 (353)	Periodic Patta	Basti	0.016
				1800 (38)	Periodic Patta	Cultivated	0.0067
				2039 (25)	Periodic Patta	Cultivated	0.0667
				1795 (545)	Periodic Patta	Cultivated	0.0107
				1798 (398)	Periodic Patta	Cultivated	0.0133
				1799 (557)	Periodic Patta	Cultivated	0.0533
				2061 (Govt.)	Govt.	Govt.	0.0401
				2052 (200)	Periodic Patta	Cultivated	0.0173
				2051 (AP)	Annual Patta	Basti	0.1333
				2053 (180)	Periodic Patta	Basti	
				2054 (AP)	Annual Patta	Basti	
				1831 (199)	Periodic Patta	Cultivated	0.0227

				1832 (208)	Periodic Patta	Cultivated	0.024
				1873 (58)	Periodic Patta	Basti	0.0107
				1873/2506 (663)	Periodic Patta	Basti	0.04
				1872 (135)	Periodic Patta	Basti	0.04
			(3) Kolakhowa gaon	1524 (68)	Periodic Patta	Cultivated	0.0027
				1391 (518)	Periodic Patta	Cultivated	0.036
				1400 (341)	Periodic Patta	Cultivated	0.024
				1401 (392)	Periodic Patta	Cultivated	0.028
				1404 (515)	Periodic Patta	Cultivated	0.0213
				1407 (421)	Periodic Patta	Cultivated	0.0027
				1411 (38)	Periodic Patta	Cultivated	0.064
				1412 (518)	Periodic Patta	Cultivated	0.0213
				1413 (38)	Periodic Patta	Cultivated	0.02
				1527 (128)	Periodic Patta	Cultivated	0.0213
				1532 (342)	Periodic Patta	Cultivated	0.0147
				1533 (520)	Periodic Patta	Cultivated	0.0133
				1535 (38)	Periodic Patta	Cultivated	0.0133
				1538/2105 (649)	Periodic Patta	Cultivated	0.036
				1552 (342)	Periodic Patta	Cultivated	0.0133
				1553 (142)	Periodic Patta		0.008
				1554 (38)	Periodic Patta	Cultivated	0.0013
				1557 (517)	Periodic Patta	Cultivated	0.0067
				1559 (565)	Periodic Patta	Cultivated	0.0213
				1580 (389)	Periodic Patta	Cultivated	0.0667
				1581 (453/719)	Periodic Patta	Cultivated	0.0213
				1633 (38)	Periodic Patta	Cultivated	0.0667
				1636 (66)	Periodic Patta	Cultivated	0.0027
				1675 (510)	Periodic Patta	Cultivated	0.033
				1677 (520)	Periodic Patta	Cultivated	0.136
				1386 (38)	Periodic Patta	Cultivated	0.0027
				1398 (518)	Periodic Patta	Cultivated	0.004
				1399 (392)	Periodic Patta	Cultivated	0.0027
				1408 (38)	Periodic Patta	Cultivated	0.0027
				1409 (420)	Periodic Patta	Cultivated	0.0027
				1410 (519)	Periodic Patta	Cultivated	0.0027
				1562 (38)	Periodic Patta	Cultivated	0.004
				1578 (344)	Periodic Patta	Basti	0.0027
				1563 (464)	Periodic Patta	Cultivated	0.0067
				1680 (43)	Periodic Patta	Basti	0.0013
				1681 (69)	Periodic Patta	Basti	0.004
			(4) Ailamuthia gaon	56 (185)	Periodic Patta	Cultivated	0.016
				95 (162)	Periodic Patta	Cultivated	0.012
			(5) Kutuhaboria gaon	1889 (298)	Periodic Patta	Basti	0.0133
				1890 (290)	Periodic Patta	Bussiness	0.1467
				1890/2197 (423)	Periodic Patta	Bussiness	0.044
				1886 (AP)	Annual Patta	Basti	0.024
				1874 (297)	Periodic Patta	Cultivated	0.0667
				1853/2183 (415)	Periodic Patta	Cultivated	0.0347
				1777 (192)	Periodic Patta	Cultivated	0.0533
				1860 (389)	Periodic Patta	Basti	0.024
				1853 (340)	Periodic Patta	Basti	

				1837 (340)	Periodic Patta		0.1213
				1850 (218)	Periodic Patta	Basti	0.0053
				1810 (167)	Periodic Patta	Basti	0.04
				2172 (410)	Periodic Patta	Cultivated	0.0987
		(3) Hatigarh	(1) No. 1 Gharphalia gaon	317/451 (98)	Periodic Patta	Cultivated	0.024
				387 (AP)	Annual Patta	Cultivated	0.0013
				251 (64)	Periodic Patta	Cultivated	0.0533
				304 (18)	Periodic Patta	Cultivated	0.0027
			(2) No. 2 Gharphalia gaon	1074 (137)	Periodic Patta	Cultivated	0.0867
				1115 (249)	Periodic Patta	Basti	0.0747
				1129 (AP)	Annual Patta	Basti	0.0027
			(3) Koporadhara gaon	787 (240)	Periodic Patta	Basti	0.0053
				825 (AP)	Annual Patta	Cultivated	0.0053
			(4) Meteli gaon	372 (124)	Periodic Patta	Basti	0.0013
		(4) Chaukhat	(1) Sarumoinaparia gaon	715/785 (224)	Periodic Patta	Basti	0.0267
			(2) Gariahabi gaon	92 (Tea Periodic Patta.2)	Annual Patta	Tea/Basti	0.1227
				92/Ka (Tea Periodic Patta.2)			
				92/Kha (Tea Periodic Patta.2)			
				128 (11)	Periodic Patta	Basti	0.0267
				138/168 (49)	Periodic Patta	Cultivated	0.04
			(3) Bamkukurachowa gaon	827 (243)	Periodic Patta	Cultivated	0.03
				786 (253)	Periodic Patta	Basti	0.0067
				785 (76)	Periodic Patta	Basti	0.0067
				746 (41)	Periodic Patta	Basti	0.004
				724 (241)	Periodic Patta	Basti	0.12
				825 (241)	Periodic Patta	Basti	
				826 (242)	Periodic Patta	Basti	0.0987
				824 (240)	Periodic Patta	Basti	0.104
				822 (239)	Periodic Patta	Basti	0.0533
				805 (228)	Periodic Patta	Basti	0.04
				747 (41)	Periodic Patta	Basti	0.0427
			(4) Sonaribhorolua gaon	1281 (97)	Periodic Patta	Basti	0.0067
				1280 (52)	Periodic Patta	Basti	0.0133
				1326 (277)	Periodic Patta	Basti	0.0173
				1325 (AP)	Annual Patta	Basti	0.0707
				1305 (377)	Periodic Patta	Basti	0.0347
				1286 (117)	Periodic Patta	Basti	0.0067
				1351/1470 (423)	Periodic Patta	Basti	0.012
				1286/1475 (428)	Periodic Patta	Basti	0.0067
		(5) Hulungapara	(1) Metelichuk gaon	445 (22)	Periodic Patta	Cultivated	0.0027
			(2) Mudoijania- Bhorolua	26 (209)	Periodic Patta	Basti	0.012
				32 (117)	Periodic Patta	Cultivated	0.0066
				36 (89)	Periodic Patta	Basti	0.004
			(3) Tinkunia Gharphalia	87 (90)	Periodic Patta	Cultivated	0.0213
			(4) Gharphalia gaon	109 (221)	Periodic Patta	Basti	0.1227
				110 (221)			

				435 (177)	Periodic Patta	Basti	0.0133
				54 (163)	Periodic Patta	Cultivated	0.068
				436 (160)	Periodic Patta	Basti	0.0133
				69 (106)	Periodic Patta	Cultivated	0.0693
			(5) Narah Hiloidharia gaon	26 (237)	Annual Patta	Basti	0.012
			(6) Kukura Chowra	31 (140)	Periodic Patta	Cultivated	0.0533
				32 (140)	Periodic Patta	Cultivated	0.0067
		(6) Lahing	(1) Changmai gaon	39 (14)	Periodic Patta	Cultivated	0.1093
		(7) Gakhirkhowa	(1) Naobaisha gaon	1113 (219)	Periodic Patta	Basti	0.0067
			(2) Jahakhat gaon	74 (100)	Periodic Patta	Cultivated	0.0587
		(8) Teok	(1) Dhekiani Bhorolua gaon	595 (108)	Periodic Patta	Basti	0.064
			(2) Chaudang gaon	846 (248)	Periodic Patta	Basti	0.008
				533 (144)	Periodic Patta	Business Place	0.0066
				534 (144)	Periodic Patta	Business Place	0.0667
				575 (84)	Periodic Patta	Basti	0.006
				570 (26)	Periodic Patta	Basti	0.0307
			(3) Bangali gaon	242 (2)	Periodic Patta	Basti	0.1066
				464 (36)	Periodic Patta	Basti	0.0093
		(9) Hazari	(1) Nakari gaon	6 (52)	Periodic Patta	Cultivated	0.1107
			(2) Dulia gaon	859 (15)	Periodic Patta	Cultivated	0.012

[F. No. NHAI/BOT/11012/55/19/2004/Part-3]
MAYA PRAKASH, Dy. Secy.